



# दो दुकानों पर बेची जा रही थी फास्ट्रैक की नकली घड़ियां, दो गिरफ्तार

Publish Date: Wed, 06 Mar 2019 10:47 PM (IST)

शहर में ब्रांड के नाम पर नकली सामान बेचे जा रहे हैं। कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस ने अट्टा मार्केट में दो दुकानों पर छापा मार कर टाइटन ब्रांड की 125 नकली फास्ट्रैक घड़ियां बरामद की हैं।

जागरण संवाददाता, नोएडा :

कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस ने बुधवार को अट्टा मार्केट में दो दुकानों पर छापा मार कर फास्ट्रैक की 125 नकली घड़ियां बरामद की हैं। पुलिस ने नकली घड़ियां बेच रहे दो आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है। इस दौरान कंपनी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस ने दोनों आरोपितों को बुधवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

गुरुग्राम के सुहाना रोड निवासी टीकेश्वर नाथ आइपी सल्यूशन कंपनी में पदाधिकारी हैं। उनका कहना है कि टाइटन कंपनी ने आइपी सल्यूशन कंपनी को अपनी घड़ियों की जांच के लिए अधिकृत किया है। कंपनी सेक्टर 27 स्थित अट्टा मार्केट का सर्वे कर रही है। मंगलवार शाम करीब पांच बजे सर्वे के दौरान पता चला कि मार्केट में कुछ दुकानों पर टाइटन के फास्ट्रैक ब्रांड की नकली घड़ियां बेची जा रही हैं। उन्होंने कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस से शिकायत की और पुलिस टीम के साथ दुकानों पर छापेमारी की गई। अट्टा स्थित हूकूम मार्केट में एनएस पाइसिंग शॉप पर जांच के दौरान फास्ट्रैक ब्रांड की 92 नकली घड़ियां बरामद हुई हैं। दुकानदार आसिस सरकार को मौके से दबोच लिया गया। वह मूलरूप से पश्चिमी बंगाल का रहने वाला है और निठारी में किराए पर रहता है। इसके अलावा धर्मपाल अवाना मार्केट में सहगल मार्ट से भी 33 नकली घड़ियां बरामद हुईं। दुकानदार गौरव कुमार निवासी पहाड़गंज, दिल्ली को भी मौके से पकड़ लिया गया। इन घड़ियों की फिनिशिंग, लोगो और बार कोड टाइटन ब्रांड की घड़ी से अलग पाया गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजबीर सिंह चौहान का कहना है कि दो दुकानों पर छापा मार कर टाइटन ब्रांड की नकली घड़ियां बरामद की गई थी। इस दौरान दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्हें जेल भेज दिया गया है।

Posted By: Jagran

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/noida-two-stores-were-being-sold-to-titan-fake-watches-two-arrested-19020106.html>